

Date: 20-07-2023

The Secretary	The Secretary				
Listing Department	Listing Department				
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited				
PJ Towers, Dalal Street,	Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,				
Mumbai - 400 001	Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai				
Script Code: 532696	400051				
	Script Code: EDUCOMP				

Sub: Copies of Newspaper Advertisement – Information for cancellation/postponement of 27th Annual General Meeting (AGM) to be held through Video Conferencing (VC) I Other Audio Visual Means (OAVM)

Dear Sir / Madam.

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read in accordance with the relevant circulars issued by the ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Business Standard (English Language) and Business Standard ((Hindi Regional Language) on July 20, 2023. The advertisement is in regard to intimation for cancellation/postponement of 27th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on July 20, 2023, through VC / OAVM.

The above may please be treated in compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Part A of Schedule III of the said Regulations.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours Truly,

For Educomp Solutions Limited

(Under CIRP)

Mahender Khandelwal

Resolution Professional in the matter of Educomp Solutions Limited

Taken on record

IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/ 10086

Note: As informed earlier also vide various communications, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company.

Educomp Solutions Limited (CIN: L74999DL1994PLC061353)

Corporate office: 514, Udyog Vihar, Phase III, Gurgaon – 122001, Haryana (INDIA).

Tel.: 91-124-4529000.

Registered Office: 1211, Padma Tower I, 5, Rajendra Place, New Delhi-110008.

Web site www.educomp.com; <a href="mailto:emailt

33% Indians in America say they'd like to return

PEW RESEARCH: 59% Indian Americans have unfavourable opinion of China

ADITI PHADNIS New Delhi, 19 July

ost Asian Americans in the US, including Indians, their ancestral homelands favourably, except Chinese Americans, reveal the findings of a survey by polling agency Pew, which offers new insights into the thinking of Asian Americans: a category that includes immigrants as well as people born in the US but tracing their ancestry to India, China, the Philippines, South Korea, Japan, and other Asian countries.

The Indian diaspora across the world, including the US, has been wooed aggressively by the Narendra Modi government and is seen as a force multiplier in raising India's image globally.

Seventy-six per cent of Indian American adults have a favourable opinion of India but when asked whether they would ever move to India, 65 per cent Indian adults say they would rather stay in the US, compared with 33 per cent who say they would like to move back.

Immigrants who have been in the US for less time are likely to be open to moving back, relative to those who have been in the US for longer. Nearly all US-born Indian adults say they would not move to India (85 per cent). Half of Indian adults who say they would move to India would do so because of its lower cost of living (52 per cent).

Some 59 per cent of Indian American adults say they have an unfavourable opinion of China, including 32 per cent who report very unfavourable opinions of the country. Overall, Indian adults are 12 percentage points less likely than other Asian adults to say their opinion of China is favourable. The reverse is true as well. The ratings of India are particularly negative among Chinese and South Korean adults in the US, the survey shows.

Education plays a role in making a judgement: of all Asian Americans, when it comes to views of India, 42 per cent of those with a postgraduate degree have favourable views of the country, compared with 35 per cent of those with a bachelor's degree and 27 per cent of those with less formal schooling.

The pattern is reversed, though, when

Brand experts say the

move to name the bloc

INDIA is a good way to

Politics has always been about a war of words

and a new game seems to be taking the Indian

political landscape by storm, with parties

spelling out (literally) a challenge to those in

tions, 26 Opposition parties came together on

Tuesday, saying that their alliance would be

called INDIA, or the Indian National

Developmental Inclusive Alliance. Soon after,

Prime Minister Narendra Modi coined a new

full form of the ruling National Democratic

Alliance (NDA) - New India, Developed

A country until now, INDIA is now also a

Shakespeare had famously asked: 'What's

Says Santosh Desai, managing director and

in a name?' A lot, apparently. Brand experts feel

that the move is a good way to sound the bugle

chief executive officer, Futurebrands India: "It

is a very clever use of the name as it preempts a

narrative that the Bharativa Janata Party (BJP)

could have used. It provides a credible umbrella

for the Opposition parties and seems to be

something large and bold, and could signal a

shift in how the Opposition views itself and

how it is viewed by the people". "It also puts

the BJP on the back foot," he adds. Agrees Dilip

Cherian, communications consultant, "In mar-

keting terms, we call this a 'good thing'— there

was an opportunity for them to steal the narra-

tive and move ahead and they managed to do

that. From the standing start of 0, this starts

it is really what comes next that will show if the

move is a masterstroke. Cherian points out that

mnemonics only make up 20-30 per cent of a

makes a good brand is the values it embodies,

and it is far too early to say what values this

brand stands for. The name allows it an aspira-

tional advantage but that has to be demonstrat-

ed to the customer — in this case the citizen."

its competition is. "Here again, INDIA has a

higher advantage," he adds. Says Harish Bijoor,

brand expert and founder, Harish Bijoor

Consults, "It can become a masterstroke only

when we see the output. In the 2024 elections,

if we see that this acronym is taken ahead with

The third part of a successful brand is what

While the name itself has grabbed attention,

The other important component of what

with a huge advantage," he says.

nation, Aspirations of the people of India.

In the run-up to the 2024 Lok Sabha elec-

sound the poll bugle


New Delhi, 19 July

brand name.

What's in a name?

For Opposition and

brand experts, a lot



they would

move back to

IN NUMBERS

of Indian **American** adults have a favourable opinion of

65% Indian Americans say they would not like to return to India, 33% say they would like to move back

52% of Indian **53**% of Asian adults who say Americans say the US will be the leading economic power India would do so because of in 10 years, 36% lower living costs favour China

15% Indian adults say India will be the world's leading economic

Place: New Delhi

it comes to China. Asian Americans with lower levels of education tend to feel more positively about China than those with more formal schooling. For example, 17 per cent of those with at least a bachelor's degree have positive views of China, compared with 23 per cent of those who did not complete college. About half of Asian Americans (53 per cent) say the US will be the world's leading economic power over the next decade. About one-third (36 per cent) of Asian adults say China will be the leading economic power globally in the next 10 years and a much lower share says the same about India and Japan.

Views on the next decade's top economy vary by place of birth, age, and gender. Indian adults are most likely to say India will be the world's leading economic power, with 15 per cent holding this view. No more than 2 per cent of any other origin group in the report say the same.

The report has interesting insights into the way Chinese Americans see America and the rest of Asia. Chinese and Vietnamese adults are the only origin groups in the report to express more

'Jeetega Bharat'

Opposition bloc

17-18 JULY BENGALURU,

tagline for

A day after the Opposition parties

announced INDIA as the name for their

alliance, they finalised Jeetega Bharat as

its tagline, setting the tone for their 2024

Lok Sabha election campaign. The Hindi

to be replicated in several regional

languages, sources said. During the

tagline means "India will win" and is likely

meeting in Bengaluru on Tuesday, several

sources said. "It was decided that it would

a certain set of creatives and top-of-the-line

campaigns that focus on India the way the

Opposition party sees it." He adds, "INDIA is a

semantic wordplay at this point. It can turn into

something powerful depending on how the

Opposition parties defend the acronym and the

way they go on the offensive against the ruling

to counter the move. "The new acronym for

NDA is not a solid-enough repartee. But I will

not put it past the Prime Minister and the team

to come up with a solid riposte. This could be a

positioning of Bharat versus India." But with

INDIA announcing its tagline — Jeetega

Bharat, and effectively covering all bases, the

BJP has some serious thinking to do. "Expect a

repackaging of terminologies in this great new

election season 2024," Bijoor concludes.

Bijoor points out that it is now up to the BJP

leaders felt that the word Bharat should

feature in the name of the alliance, the

feature in the tagline," a senior leader

favourable views of other places in Asia than their ancestral homelands. Chinese adults see Japan, Taiwan, and South Korea more favourably than they do China. Vietnamese adults see Japan more favourably than they do Vietnam. As tensions rise between Mainland China and Taiwan, Chinese Americans' favourability of Taiwan over China is particularly notable: 62 per cent of Chinese Americans say they have a favourable view of Taiwan, higher than the share who say the same about China (41 per cent).

Conducted July 5, 2022, through January 27, 2023, among 7,006 Asian adults living in the US, the survey finds fewer than half of Chinese Americans (41 per cent) hold a favourable opinion of China. Chinese adults who say they would move to China would do so to be closer to family and friends (27 per cent) and because they are more familiar with Chinese culture (24 per cent).

Fifty-three per cent of Chinese Americans name the US as the top power, compared with 40 per cent who

Govt reduces subsidised tomato price to ₹70 per kg

The Union government has reduced the price of subsidised tomatoes to ₹70 per kg from ₹80 per kg as of now to provide relief to the common man from high retail prices. The Centre is selling omatoes to people at a sub sidised rate of ₹80 a kg in Delhi-NCR and some other key cities through the Cooperative Consumers' Federation of India (NCCF) and the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED). The all-India average retail prices of tomatoes is ruling at nearly ₹120 a kg. In the national capital, the rate has come down to ₹120 per kg. "The Department of Consumer Affairs has directed NCCF and NAFED to sell tomatoes at retail price of ₹70 a kg rate from July 20 in view of the declining trend in tomato prices," an official statement said.

Pune farmer earns ₹3 cr through sale of tomatoes

Even as the soaring prices of tomatoes are burning a hole in the common man's pocket, a farmer from Pune in Maharashtra has become a millionaire by selling his bountiful yield for ₹3 crore in just over a month while overcoming various challenges. Farmer Ishwar Gaykar (36), from Pachghar village in Junnar tehsil of Pune district, had faced a ing a large quantity of harvested tomatoes in May this year due to low prices. Undeterred by the setback, he continued to exhibit unwavering determination and work tirelessly on his 12-acre farm to cultivate tomatoes. He aims to earn another ₹50 lakh by selling the remainder of the pro-

difficult decision of dump-

Educomp EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED

Regd. Office: 1211, Padma Tower I-5, Rajendra Place, New Delhi 110008 **Tel.**: 91-11-2575 5920 **Fax**: 91-1125766775

E-mail: investor.services@educomp.com, Website: www.educomp.com

CANCELLATION / POSTPONEMENT OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Educomp Solutions Limited ('the Company') for financial year 2020-2 which is scheduled to be held on Thursday, July 20, 2023 at 11:30 AM through Video Conference facility ('VC')/or Other Audio Visual Means ('OVAM') compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 20/2020 dated April 13, 2020, 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 date December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circular') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 read with SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRIP/2021/11 dated 13th January, 2021 and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws and the rules made there under stands cancelled/postponed due to certain unavoidable circumstances, i.e., the non-release of BENPOS data by the CDSL to our RTA, we were unable to determin he entitlement of shareholders for the e-voting, which resulted in the noncommencement of the e-voting process. The inconvenience to Members i

The intimation of the same will be sent in due course only through email to all those Members has received the notice earlier. The aforesaid document will also be made available at www.educomp.com, stock exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. New date and time of 27th Annual General Meeting will be

In case of any query you may write to Investor Services a nvestor.services@educomp.com or swapann@linkintime.co.in

For Educomp Solutions Limited

(Under CIRP)

Mahender Khandelwa Resolution Professiona

Date : July 19, 2023 Taken on record IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

SAURASHTRA CEMENT LIMITED

(CIN: L26941GJ1956PLC000840)

Registered Office: Near Railway Station, Ranavav 360 560 (Gujarat) E-Mail: sclinvestorquery@mehtagroup.com Website: http://scl.mehtagroup.com

Regd. Office Phone: 02801-234200, Corporate Office Phone: 022-66365444

NOTICE OF THE 65th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E – VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

. Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Thursday, August 17, 2023 at 3.15 p.m. (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM").

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with various circulars issued from time to time electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financia Year 2022-23 required to be attached thereto, have been sent on July 19, 2023 with the Registrar & Transfer Agents/Depository Participant(s). The aforesaid Notice and Annual Report are also available on the Company's website a https://scl.mehtagroup.com/investors/agm-notice and https://scl.mehtagroup.com investors/financials/annual-reports and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited at https://www.evoting.nsdl.com.

The Share Transfer Books and Register of Members of the Company shall remain closed from Friday, the 11th August 2023 to Thursday, the 17th August 2023 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting. The voting rights of the Company held by them as on the cut-off date i.e. 10^{th} August 2023.

The Company is providing to its Members, the facility of 'Remote e-voting' before the AGM and 'e-voting during the AGM' to cast their vote by electronic means in respect of the business to be transacted at the AGM in virtual mode. National Securities Depository Limited (NSDL) will be providing the facility for voting through remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM

5. The remote e-Voting facility would be available during the following period

Commencement of Remote e-Voting | Monday, 14th August 2023 (9:00 A.M. IST) nd of Remote e-Voting Wednesday, 16th August 2023 (5:00 P.M. IST)

During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on 10th August 2023 ('Cut-Off date') may cast their vote by remote e-Voting in respect of the business set out in the Notice of the AGM. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter Once the vote on resolution(s) is cast and confirmed by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members

Company as on the Cut-Off date i.e. 10th August 2023. . Members will be provided with the facility for remote e-voting through electronic voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the Meeting, will be eligible to exercise their right to vote during such

shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the

Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not

proceedings of the AGM.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC / OAVM: Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned below for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see a link of "VC/OAVM link" placed under the "Join meeting" menu against the company name. You are requested to click on the VC/ OAVM link placed under the Join Meeting menu. The link for VC/ OAVM will be available in Shareholder/Membe login where the EVEN of the Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience Further Members will be required to allow usage of Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

. The facility for joining the meeting would be kept open at least 30 minutes before the time scheduled for AGM and will be available for Members on first come first served basis. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis

. Members as on the cut-off date who would like to express their views/ask question: as a speaker at the AGM may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number at sclinvestorquery@mehtagroup.com between Thursday, 10th August 2023 (9.00 a.m. IST) and Wednesday, 16th August 2023 (3.00 p.m. IST). Only those Members who have pre-registered themselves as speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM Further, those Members who have not registered themselves as a speaker, but desirous of expressing their views/ask questions during the AGM, may be allowed to do so, through the chat box option. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

.The attendance of Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members facing any technical issue in login before / during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or 1800 1020 990/1800 22 44 30 or contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President on evoting@nsdl.co.in or 1800 Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for an

technical issues related to login through Depository i.e., NSDL and CDSL:

Helpdesk details ogin type

Place: Mumbai

ndividual Shareholders | Members facing any technical issue in login can contact nolding securities in NSDL helpdesk by sending a request at <u>evoting@nsdl.co.in</u> lemat mode with NSDL | or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 ndividual Shareholders | Members facing any technical issue in login can

nolding securities in contact CDSL helpdesk by sending a request at lemat mode with CDSL helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43

For Saurashtra Cement Limited

Chief Legal Officer, CS & Strategy

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स टावनकोर लिमिटेड THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED (A Government of India Enterprise) Regd. Office: Eloor

ORPORATE MATERIALS, FACT-PD ADMINISTRATION BUILDING, UDYOGAMANDAL, KOCHI- 683 501 (KERALA FRANSPORTATION OF SULPHUR FROM MRPL (MANGALORE)TO FACT UD AND CD BY ROAD Enquiry No.MM/182/E27849 dtd.19.07.2023

FACT invites Online Bids (TWO PART) for undertaking the work of transportation of Sulphur from MRP (Mangalore) to FACT Udyogamandal Division (UD) and Cochin Division (CD) by road usin trucks/lorries for a period of 2 years, through https://eprocure.gov.in. Any change/Extensions to thi tender will be informed only through our website/CPP e-procurement portal and will not be published.

n newspapers.

Due date/ time for submission of bids is:03.08.2023 / 3.00 P.M.

lindi version of this advertisement is published in our website: www.fact.co.in

Asst. General Manager(Materials)

HDFC BANK We understand your world

HDFC Bank Limited

Regd. Office: HDFC Bank House. Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400013. [Corporate Identification Number-L65920MH1994PLC080618] [Email: shareholder.grievances@hdfcbank.com]

[Website: www.hdfcbank.com] [Tel: 022 3976 0000 / 07 / 12] Notice of the 29th Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the $29^{ ext{th}}$ Annual General Meeting ("AGM") of HDF0 Bank Limited ("the Bank") will be held on Friday, August 11, 2023 at 01:30 p.m. Indian Standard Time (IST) through Video Conferencing ("VC") / Othe Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in th

The Bank has sent the Notice of the AGM along with the Integrated Annua Report for the Financial Year 2022-23 on Wednesday, July 19, 2023 through electronic mode to Members whose email addresses are registered with th Bank / the Registrar & Transfer Agent ("RTA") / Depositories in compliance with the Circular Nos. 20/2020 dated May 05, 2020 and 02/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and in accordance with circular dated May 13, 2022 and January 5, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Applicable Circulars") and Regulatio 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the Financial Yea 2022-23 is available on the Bank's website at https://www.hdfcbank.com personal/about-us/investor-relations/annual-reports and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, the Nationa Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of th service provider engaged by the Bank viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rul 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 a amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries o India (ICSI), Members are provided with the facility to cast their votes on a resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system .e. via remote e-voting platform provided by the NSDL.

The remote e-voting period will commence on Monday, August 7, 2023 at 9:00 A.M. IST and will end on Thursday, August 10, 2023 at 5:00 P.M. IST During this period, Members can select EVEN No. 124660 to cast their vote electronically. The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter The facility for voting through electronic means shall also be provided at th AGM. Those Members, who are present at the AGM through VC / OAVN facility and have not already cast their votes on the resolutions via remote voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have already cas their vote through remote e-voting prior to the AGM can participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to vote again o

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Bank as on Friday, Augus 1, 2023, being the "Cut-Off Date" for this purpose. A person whose name i recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date shall only be entitled t vail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM

Members who are holding shares in physical form or who have not registered heir email addresses and any person who acquires shares of the Bank and becomes a Member after dispatch of the Notice and is holding shares as o the Cut-Off Date, are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be adopted for obtaining the User ID and password for casting the ote through remote e-voting. The Board of Directors have appointed Mr. B Narasimhan of M/s. B. N. & Associates, Practicing Company Secretaries, and in his absence. Mr. V. V. Chakradeo of M/s. V. V. Chakradeo & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in

Manner of registering/updating email addresses, mobile number and change

You are requested to send a request to the RTA of the Bank viz. Datamatics Business Solutions Limited at hdinvestors@ datamaticsbpm.com providing name of shareholder, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back), self- attested scanned copy of Permanent Account Number(PAN) for registering email address or visit https://hbemailregistration datamaticsbpm.com/ for updating email address and mobile

To enable the Bank to comply with SEBI Circular no. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3 2021 and for crediting your dividend amount directly into your bank account, you are requested to forward the following documents to the RTA:

1. Self-attested copy of your PAN Card;

2. Copy of the Cheque leaf where you are maintaining your

3. Self-attested copy of your Passport/ Aadhaar Card/Electricity Bill/latest bank statement in case there is any change in you

Kindly note that pursuant to the abovementioned SEBI Circular. it has been made mandatory for shareholders holding shares of the Bank in physical form, to furnish PAN, KYC details and Nomination details to the Bank / RTA, and if the above details are not furnished by March 31, 2023, the concerned shares shall be frozen by the RTA. Members are also requested to furnish/update valid PAN to the RTA. In this connection, the following forms as notified by SEBI, can be downloaded from the Bank's website at https://www.hdfcbank.com/personal/ about-us/corporate-governance/shareholders-information-andhelpdesk and the RTA's website at www.datamaticsbpm.com under tab - Solutions > Registrar Transfer Agent > Information

1. Form ISR-1 (Request for registering PAN, KYC details or

changes/up-dation thereof); 2. Form ISR-2 (Confirmation of Signature of shareholders by their banker)

3. Form SH-13 (Nomination form)

You are requested to contact your DP and register your email

address and bank account details (including 9 digit MICR No.. 11 digit IFSC Code No. and Core Banking Account No.) in your demat account, as per the process advised by your DP. Once the new details are updated, please share the copy of client master list with the RTA for credit of dividend directly into the said bank

Details of the process/method of casting votes by Members is included in the AGM Notice.

Dividend related information:

The Board of Directors of the Bank, at its meeting held on April 15, 2023, have ecommended a dividend of ₹ 19.00 per equity share on the face value of Re. 1/- each for the year ended March 31, 2023. The record date for determining eligibility of members entitled to receive the

dividend on equity shares, if approved by the shareholders of the Bank at the AGM is Tuesday, May 16, 2023. Dividend shall be paid to those shareholders whose names appear in the Bank's Register of Members / statements o peneficial position received from the National Securities Depository Limited and the Central Depository Services (India) Limited as at the close of busines hours on Tuesday, May 16, 2023. If approved at the AGM, the expected date for payment of dividend in electronic form and for dispatch of physica dividend warrants would be Monday, August 14, 2023 onwards.

Members are also requested to note that pursuant to the provisions of the Finance Act, 2020, the Bank would be required to deduct tax at source ('TDS') at the prescribed rates in respect of payment of dividend to its Members resident as well as non-resident, if so approved by the shareholders of the Bank at the AGM. For more details, Members are requested to refer the dividend related information provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll free number 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000, or send a request to Ms. Pallavi Mhatre Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, E-mail: evoting@nsdl.co.ii to get your grievances on e-voting addressed. You may also send an e-mai to the Bank at: santosh.haldankar@hdfcbank.com / venkiteswaran.iyer@

We look forward for your participation at the 29th AGM.

For HDFC Bank Limited

Place: Mumbai Santosh Haldankar



इंडियन बैंक इंदिरापुरम शाखा वैभव खंड

परिशिष्ट—।∨

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नबिक, अधोहस्ताक्षरी ने **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से वित्तीय आस्तियों व प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत तथ प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ [नियम ३] के साथ पठित धारा १३(१२) के तहत प्रदत्त शक्तियं का प्रयोग कर दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को मांग सूचना जारी की थी जिसमें **इंडियन बैंक, इंदिरापुर**म **गाजियाबाद शाखा** (शाखा कोडः 1649) स्थित दुकान नं. 32 व 33, गौर ग्रीन सिटी, गौर ग्रेविटी मॉल प्लॉट नं. 8 ब्लॉक बी, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद के साथ **श्री दीपक सिंह गुसाइन पुत्र श्री मनोह**र सिंह गुसाइन (कर्जदार) और श्रीमती अर्चना गुसाइन पत्नी श्री दीपक सिंह गुसाइन (सह-कर्जदार) से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 30,84,403/- (रुपये तीस लाख चौरासी हजार चार सौ तीन मात्र) क लक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चकता करने के लिए कहा।

कर्जदार द्वारा राशि का भूगतान करने में असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का दिनांक 19 जुलाई, 2023 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लि आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन–देन राशि **रु. 30,84,403/– (रुपये तीस लाख चौरासी हजार चार सौ तीन मात्र)** और इस पर 19 अप्रैल, 2023 से आगे ब्याज के लिए **इंडियन बैंक** के प्रभाग

प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धार (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण परिसंपत्ति जिसमें प्रतिभूति हित किया गया है, का विशिष्ट विवरण निम्नवत् है

बंधक परिसंपत्तियाँ पूर्ण स्वामित्व आवासीय संपत्ति फ्लैट नं. ए-1/002, टाईप-3, भूतल (छत अधिकार रहित), ब्लॉक ए VXL ईस्टर्न हाईट्स, गाँव माकनपुर, निकट न्याय खंड—3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201014

> पर्वः अन्य संपत्ति उत्तरः रोड 40 फुट चौड़ा

पश्चिमः अन्य संपत्ति दक्षिणः अन्य संपत्ति

दिनांकः 19.07.2023

सीमाएँ निम्नवत् हैं:--

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)

एक्सिस बैंक लिमिटेड. एसबीबी लोन सेंटर एससीओ - 221 सेक्टर-12 AXIS BANK परमजीत टावर, करनाल-132001, **पंजीकृत कार्यालय :** "त्रिशूल" – तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, निकट लॉ गार्डन संब्रिज, अहमदाबाद—380006

कब्जा सूचना

जबकि. अधोहस्ताक्षरी ने, **ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी** के रूप में, वित्तीय आस्तिय का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **01—मार्च–2023** जारी की थी, जिसमें कर्जदार, सह–कर्जदार⁄बंधकदाता **1. श्री पवन अग्रवाल पुत्र श्री गोवर्धन दास, एच. नंब**र 2049 / 30. सेक्टर-6. बहादरगढ, हरियाणा-124507, अन्य पता : मैसर्स अग्रवाल इंडस्टियल टल्स इसके स्वामी श्री पवन अग्रवाल पुत्र श्री गोवर्धन दास के माध्यम से, निकट पीर बाबा, बाडी ब्राह्मण जम्मू, जे एवं के – 181133, अन्य पता : श्री पवन अग्रवाल पुत्र श्री गोवर्धन दास, फ्लैट नंबर बी-2/63, ब्लॉक बी-2, छठा तल, राजस्थली अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 (2) श्रीमती मोहना अग्रवाल पत्नी श्री पवन अग्रवाल, एच नंबर 2049/30, सेक्टर—6, बहादुरगढ़ हरियाणा—124507. अन्य पता : श्रीमती मोहना अग्रवाल पत्नी श्री पवन अग्रवाल. फ्लैट नंबर बी—2/63, ब्लॉक बी—2, छठा तल, राजस्थली अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 से सूचना में वर्णित अनुसार 01—मार्च—2023 तक बकाया राशि रू. 1,05,04,859/— (रूपए एक करोड़ पांच लाख चार हजार आठ सौ उनसठ मात्र) + वास्तविक भुगतान तक ब्याज, अनुषंगी खर्चे और लागत का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं. अतः एतदद्वारा कर्जदार तथा जन साधारण क सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त ु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा 15 जुलाई, 2023 को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की 01—मार्च—2023 तक बकाया राशि **रू. 1,05,04,859/— (रूपए एक करोड़ पांच** लाख चार हजार आठ सौ उनसठ मात्र) + वास्तविक भुगतान तक ब्याज, अनुषंगी खर्चे और लागत का पूर्ण भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

<u>अचल सम्पत्ति</u> का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति आवासीय फ्लैट नंबर बी-2/63. परिमाप 114 वर्ग मीटर स्थित ब्लॉक बी–2, छठा तल, राजस्थली अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034, पंजीकृत ट्रांसफर डीड नंबर 10420 दिनांकित **25—अगस्त—2017** के माध्यम से **श्रीमती मोहना अग्रवाल पत्नी श्री पवन अग्रवाल** द्वारा स्वाधिकृत। **सेल डीड के अनुसार चौहद्दी : उत्तर :** डीड के अनुसार **दक्षिण :** डीड के अनुसार, **पूरब**ं डीड के अनुसार, **पश्चिम :** डीड के अनुसार

तिथि : 20-07-2023, स्थान : पीतमपुरा, नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड

Educomp एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : 1211, पदुमा टावर,—I-5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 **फोन** : 91—11—25755920 - फैक्स : 91—1125766775 ई—मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक का निरसन/प्रास्थगन

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्र लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") जोकि कार्पोरे मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020 17/2020, 20/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और सर्कुलर नंबर 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर 2022 ('एमसीए सर्कलर्स') तथा भारतीय प्रतिभति एव विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओं / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2013 के साथ पठित सेबी/एचओ/ सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022, सर्कुल नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआरआईपी / 2021 / 11 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआ /पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (सेबी 'सर्कुलर') और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू विधियों एवं तदधीन विरचित नियमों के अनुसरण मे **बृहस्पतिवार, 20 जुलाई, 2023 को पूर्वा. 11.30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी), . अथवा अन्य ऑडियो विजुअल मोड (ओवीएएम) के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित है. कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निरस्त / प्रास्थिगत की जाती है। वस्तुत सीडीएसएल द्वारा हमारे आरटीए को बेनपोस (BENPOS) डेटा जारी नहीं किए जाने वे कारण हम ई—वोटिंग के लिए शेयरधारकों का अधिकार निर्धारण नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप ई–वोटिंग प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकी। सदस्यों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

उपरोक्त की सूचना यथासमय केवल ई–मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएर्ग जिनको पहली सूचना प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त दस्तावेज <u>www.educomp.com</u> पर, स्टॉक रक्सचेन्ज की वेबसाइट्स <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक की नई तिथि एवं समय की सूचना शीघ्र ही दी

किसी पूछताछ की स्थिति में आप निवेशक सर्विसेज को investor.services@educomp.com पर अथवा <u>swapann@linkintime.co.in</u> पर लिख सकते हैं।

कृते एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) हस्ता./ महेन्द्र खंडेलवाल

तिथि : 19 जुलाई, 2023 स्थान : नई दिल्ली समाधान प्रोफेशनल रेकार्डबद्ध किया गय IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

P muthoot

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पेजीकृत कार्यालयः टीसी नं. 14/2074-7, गुणुट सेंटर, पुननेन रोड, त्रिवुनंतपुरम- 695 034, CINNO. U65922KL 2010PL C025624 निगमित कार्योलयः 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रिसेंजो, प्लॉट नं. सी38 व सी39, बाह्मा कूर्ली कॉम्प्लैक्स, जी ब्लॉक (ईस्ट), मुंबई-400651 टेली फोन नं. 022-62728517 परिशिष्ट— IV(नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चुंकि वित्तीय प्रतिभृतिकरण व विनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं, 54) के तहत और प्रतिभृतित हित (प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत श्रीरत्मातित हित (प्रवर्तन शिक्तायों के अनुपालन में मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि. के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहरताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के पूरा होने के बाद नीचे वर्णित ऋणी / यों / गारंटर / ओं को मार सूचना जारी की थी। ऋणी / यों / गारंटर / ओं सोसा प्राप्त सूचना जारी की थी। ऋणी / यों / गारंटर / ओं सोसा प्राप्त सूचना जारी की थी। ऋणी / यों / गारंटर / ओं सोसा प्राप्त सूचना जारी की थी। ऋणी / यों / गारंटर / ओं सोसा प्राप्त स्वार्ति कर से साथ प्रतित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रवत्त श्रीवित के साथ प्रतित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रवत्त श्रीवित के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

कुल बकाया राशि (रु.) मांग सूचना की तिथि LAN / ऋणी / सह-ऋणी / गारंटर का नाम कब्जे की तिथि LAN No. 13100091724 1.मोहन रतन सिंह 2.सीमा देवी मोहन सिंह 06 अक्टूबर 2021 तक 18 जुलाई 2023 11 अक्टूबर 2021 10.16.921.45 / -

प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति (यों) का विवरण : पी सं. 399, ओम गायत्री वाटिका, आगरा रोड, गांव बगराणा, राजस्थान, जयपुर करणी / यों / गारेरर / ओं को विशेष रूप से और एतदद्वारा सर्वसाधारण को संपत्ति के साथ डील न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तर का व्यवहार उक्त वर्णित मांगी गई राशि और उसपर भावी ब्याज के लिए मुथूट हाउसिंग फाइनेस कंपनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

स्थानः राजस्थान दिनांकः 20 जुलाई, 2023 हस्ता. / — प्राधिकृत अधिकारी, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंटस लिमिटेड talbros सीआईएन: L29199HR1956PLC033107

पाजाइएंगः L29199मार 1930मार पाजाइएंगः पंजीकृत कार्यात्यः 141, दिल्ली मथुरा रोड, पो.ऑ. अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा—121003 फोन नं.: 0129-2251482, ई—मेल: seema_narang@talbros.com, वेबसाइटः www.talbros.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाते में शेयरों हस्तांतरण के लिए कम्पनी के शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निर् (आईईपीएफ) प्राधिकरण (लेखाकरण लेखापरीक्षा अंतरण और वापसी) नियम 2016 (**"नियम"**) व नाथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी को उन शेयरों व केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ खाते में अंतरित करना अनिवार्य है जिनके लिए निरंतर सात वर्षों की अवधि से लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या दावा नहीं किया गया है। कथित शेयर उन शेयरधारकों से संबंधित है जिन्होंने वित्त वर्ष 2015—16 और उसके बाद छह वर्षों के लिए लाभांश व

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को अन्य बातों के साथ–साथ आईईपीएफ खातें में अंतरित किये जा वाले उनके शेयरों के विवरण के साथ व्यक्तिगत सूचना उनके पंजीकृत पते पर नेज दी है। शेयरशास्त्र से अनुरोध है कि वे अपने अदावाकृत लामांश राशि का दावा करने के लिए कथित पत्राचार में वर्णि आपेक्षित दस्तावेजों को कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट के पास भेज दें। ऐसे शेयरधारव जिन्होंने निरंतर सात वर्षों से अपने लामांश का भुगतान नहीं लिया है और जिनके शेयर आईईपीएप खाते में अंतरित किये जाने हैं उनकी सूची कम्पनी की वेबसाइट <u>www.talbros.com</u> पर उपलब्ध है। आगे एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि शेयरधारकों से वैध दावा प्राप्त नहीं होने पर कम्पनी कथि जान रुपद्वार पूजा राज्या जाता है विश्वचित्र किया कि से प्राचन किया करने हैं। ने में में की आवश्यकताओं के अनुपालन में आगे बिना कोई सूचना दिये ऐसे शेयरों के आईईपीए खातें में अंतरित कर देगी। कृपया नोट करें कि कथित नियमों के अनुसरण में अदावाकृत लामांश औ आईईपीएफ को अंतरित किये गये शेयरों के संबंध में कम्पनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा इसके अलावा, ऐसे अंतरण पर शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के पास लाभांश के साथ अंतरि किये गये शेयरों का दावा कर सकते हैं जिसका विवरण <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

दस विषया पर किसी भी जानकारी /स्प्रप्रीकरण के लिए शेयरधारक कम्पनी seema_narang@talbros.com अथवा कम्पनी के रिजस्ट्रार एवं और शेयर ट्रांस्फर एजेंट— केफि क्नोलॉजीज़ लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी प्लॉट नंबर 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गचीबॉवली हैदराबाद—500032, फोन नं. 91 040 67161524; ईमेल आईडीः <u>rajeev.kr@kfintech.com</u> से संपव

कृते टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटे क्यान • फरीटाबाट सीमा नारं दिनांक : 19 जुलाई, 2023 कम्पनी सचिव

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के

नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आगामी तिथि- 05.09.2023

10/07/23

आर.सी. संख्या: 296/2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम मीनाक्षी वशिष्ट (पुराना नाम) से मीनाक्षी (नया नाम) कर लिया है। भविष्य में मुझे सुरेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी मीनाक्षी के रूप में जाना और पहचाना जाना चाहिए। पताः जे 508, एसपीएस रेजीडेंसी

वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी पिन-201014

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड cin : L35911DL1984PLC017354 HETO पंजीकृत कार्यातयः द श्रैंड प्राजा, प्वॉट नंबर २, नेस्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेज - ॥, नई दिस्ती - 110070 होन: 011-4604 4220, फ़ैस्स: 011-4604 4399 ईमेर्च: Secretarialho@horposter Hero

18 जुलाई, 2023 को प्रकाशित 40वीं एजीएम, ई-वोटिंग और बुक् क्लोजुर की सूचना के संदर्भ में,_ सदस्यों/लाभार्थ स्वामियों दारा विन्त वर्ष २०२२-२३ का अंतिम लाभांष्ट्रा पाए ख्वामय द्वारा । वत वर 2022-23 का आतम शामाश प्राप्त करने के लिए पात्रता निर्धारित करने की तिथि **गुरुवार, 27** जु**लाई, 2023** को व्यावसायिक समय की समाप्ति तक होगी जिसे एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट में पढ़ें। इति। जिसे ह्या हैने वर्ग पूर्वना साहरा बाविक स्विट ने बढ़ा उक्त तिथि को अनजाने में शुक्रवार 28 जुलाई, 2023 के रूप में उल्लेखित किया गया था। शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें।

इस शुद्धिपत्र को उक्त प्रकाशन की निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए और अन्य सभी मदें अपरिवर्तित रहेंगी। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के लिए

धीरज कपूर कंपनी सचिव और स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 19 जुलाई, 2023 अनुपालन अधिकारी

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेत)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत धिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनां ासेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा . 1योग करके कर्जदार **राहुल और नानू राम** को 14.02.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खात . HHLDMT00476331 की राशि रू..16,86,256.33 /- (रुपए सोलह लाख छियासी हजार दो **सौ छपन्न और तैंतीस पैसे मात्र)** और 14.02.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की गरीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य ननता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के नाथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त मधिकारों का कार्यान्वयन करके **17.07.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है। वेशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततृद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए गावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.16.86.256.33 /- (रुपए सोलह लाख** छे<mark>यासी हजार दो सौ छपन्न और तैंतीस पैसे मात्र) 14.02.2023</mark> के अनुसार और उस पर ब्याज के ॥थ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

ध्यारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत . नंपत्ति / संपत्तियों को मक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण म्लैट नं.एफएफ-1 (एम.आई.जी.) जिसका कवर्ड एरिया 500 स्के.फीट (46.45 स्के.मी.) पहर्ल मंजिल पर (रूफ राइट्स के बिना) बाएं हाथ सामने की ओर, प्लॉट नं.एफ -22, एसएलएफ वेद विहार ररगना और तहसील लोनी, गाज़ियाबाद – 201102, उत्तर प्रदेश और जो निम्ननुंसार परिबद्ध है:

पूर्व: फ्लैट नं.एफएफ-2 पश्चिम: रोड 9 मीटर चौड़ा उत्तर: प्लॉट नं.एफएफ -23 विक्षण: कॉमन पैसेज और सीढ़ीयां और प्लैट नं.एफएफ-3

दिनांक :17.07.2023

प्राधिकृत अधिकारी श्यान : गाजियाबाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

(*) Edelweiss एडलवेइिस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: टॉवर 3, विंग बी, कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कूर्ला (वेस्ट) मुंबई 400070

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अतर्गत प्रतत्त शक्तियों के अनुपालन **एडलबंद्देश रिटेल फाइनेंस ति. (ईआरएफएल)** के प्राधिकत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथ से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित साथ के साथ पठित सहित के साथ पठित साथ के साथ पठित पत्र साथ के साथ पठित पत्र साथ पठित पत्र साथ के साथ पठित उक्त अधिनयम के साथ पठित अतर्गत अविशेष के अनुपालन करने के लिए यहां नीचे वर्णित ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक के आ ले लिया है। ऋणी का ध्यान प्रतिभृतित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुपालन में अर्थ के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुपालन में अर्थ का किया होता। चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया व्यवहार उसपर ब्याज सहित उसमें वर्णित राशि के लिए ईआरएफएल के प्रभार का विषय होगा ।

ऋणी(यों) / सह—ऋणी(यों) का नाम	मांग सूचना तिथि व सूचना	प्रतिभूतित परिसंपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)					
ऋण खाता सं.	25.04.2023	हाइपोथेकेडिट प	रिसंपत्ति का वि	वरण			
LKRNSEQ0000034709 & LKRNSEQ0000082703) ਕਰੀ ਤਂਟੀरਿयर्स	रु. 31,38,154.42 / — (रुपए इकतीस लाख अडतीस हजार एक		आपूर्तिकर्ता का नाम व पता / निर्माता	मात्रा	मूल्य (रु.)	परफॉर्मा इनवॉइस नंबर	
(ऋणी व आवेदक) सुभाष मलिक	सौ चौवन और बयालीस पैसे केवल)	डिजिटल इंकजेट प्रिंटर यूवी फ्लैटबेड प्रिंटर 2513 (8x4) तीन पीस रिको जेन—5 हैड के साथ		1	₹ 25,00,000/-		18 जुलाई 2023
(सह—ऋणी व	11 अप्रैल् 2023	सीएनसी रूटिड डीएम1530डब्ल्यू सर्वो मीटर (1500XX 300एमएम)	T) _ दक्ष 1 ₹7,00,000/-		DE/GST/00217	2023	
सह–आवेदक)	तक देय	डिजिटल इंकजेट प्रिंटर एससी—418ओटीएस इको सोलवेंट प्रिंटर सिंगल हैड (ड्यूल हैड ऑप्शन)	इंटरप्राइजेज	1	₹ 4,70,000/-	DE/G01/00217	
		एससी—1600एम1 कोल्ड लैमिनेटर		1	₹ 1,45,000/-		
		परिसंपत्ति स्थापन का पता : न्यू शक्ति विहार, साईं मंदिर चौक के नोट : हाइपोथेकेशन दिनांक 04.12.2017 की डीड में अधिक विशेष	पास, शादीपुर, व रूप से वर्णित	मॉडल व	टाउन सोनीपत 13	1001	

स्थान : सोनीपत दिनांक : 20 जुलाई, 2023

10.07.2023

24.07.2023

18.08.2023

23.08.2023

25.08.2023

05.09.2023

विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति र

पंबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज

विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं

प्रकृति प्रभाव रखता है।

ज्ञात नहीं

ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

वसूली अधिकारी - ॥

Court Notice by bank

Spot Notice by bank:

Date of inspection:

EMD

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स हे मजीसा टैक्स क्रियेशन

of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code : HDFC0001843 है जिसमें नीलामी का दिन या 15वां दिन सम्मिलित नहीं होगा। उपरोक्त

पमयावधि में भगतान ना होने पर, उक्त सम्पत्ति का पन: विकय नई उद्घोषणा जारी करके किया जायेगा। उस स्थिति में व्यतिकमी के दारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकत

यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्चे समायोजित किए जाने के पश्चात् जप्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि वे

किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगें सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रूपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 01 प्रतिशत की

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति या उसके

केसी भाग पर राजस्व

जिसका मूल्यांकन

किया गया है

ज्ञात नहीं

E-Auction

Report Date

Date of submission of ID's and

ांजाब नेशनल बेंक <mark>५ pnb</mark> punjab national bank

एडलवेडिस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड के लिए लॉकर किराएदारों हेत् सार्वजनिक सूचना

हस्ता. 🖊 — प्राधिकृत अधिकारी

सर्किल कार्यालय : (पश्चिमी दिल्ली), द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

हमारी शाखाओं में लॉकर किराए के बकाये की वसूली हेतु सूचन

कि पंजाब नैशनल बैंक ने अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से सुरक्षित जमा कोष्ठ (लॉकर्स) किराए पर दिए थे और किराया अग्रिम रूप में वार्षिक आधार ार प्रभारयोग्य है। लॉकर किराएदार, जिन्होंने दीर्घावधि से किराए का भुगतान नहीं किया है, उनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है

क्र.सं. एसबोएल बाईकी शाखा लॉकर नं ग्राहक का नाम 1 014800 कीर्ति नगर दीपक भल्ल BK00031

विक्रय की उद्घोषणा	2	014800	कीर्ति नगर	BI00062	सूरज प्रकाश
<u>कार्यालय वसूली अधिकारी</u>	3	014800	कीर्ति नगर	AF00497	रजनेश कौशल एवं सोनिया कौशल
	4	060400	पश्चिमी पटेल नगर	AJ00808	रूबी बेदी और सुरिंदर पाल
ऋण वसूली अधिकरण, पहली मंजिल, सुधरमा-2, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, किसान भवन के सामने, जयपुर (राजस्थान)	5	060400	पश्चिमी पटेल नगर	AA00042	जय लक्ष्मी
(न्यायालय क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)	6	060500	राजौरी गार्डन	AX01505	रुचि भटनागर
यहिक माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने 29,15,587.52 रूपये (अक्षरे उनतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ सत्यासी एवं बावन पैसे	7	060500	राजौरी गार्डन	BV00026	तिलक राज सेठी
मात्र) एवं व्याज हर्जा, शुल्क इत्यादि के निर्णित ऋणीगण से वसूली हेतु ओ. ए. नंबर 326/2018 दिनांकित 09.05.2019 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 296/2019 जारी किया गया है।	8	060500	राजौरी गार्डन	AG00547	सुदर्शन पुरी
एवं यह कि अथोहस्ताक्षरकर्ता ने बंधक सम्पत्ति को जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है उक्त प्रमाण पत्र की संतृष्टि के लिए विक्रय का आदेश पारित किया है।	9	060500	राजौरी गार्डन	AW01429	जसवन्त सिंह और तजिंदर कौर
एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 13.06.2019 तक ब्याज एवं खर्चे सहित कुल 29,15,587.52 रूपये (अक्षरे उनतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ	10	060500	राजौरी गार्डन	BV00156	मुकेश वाधवा
सत्यासी एवं बावन पैसे मात्र) एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं।	11	062700	नारायणा	AH00645	कैलाश कल्तिऊ और श्याम सुंदर
एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति प्रमाणपत्रधारी बैंक द्वारा सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा दिनांक	12	062700	नारायणा	AO01225	जसपाल कौर सेठी
25.08.2023 को प्रातः 11.00 बजे से 03.00 बजे तक E-auction platform at website <u>https://www.bankeauctions.com</u> of M/s C1 India Pvt.	13	062900	न्यू राजिंदर नगर	AL00918	रमेश कुमार और सुशील कुमारी
Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurgaon 122003, Haryana पर विक्रय की जायेगी। उक्त वेबसाइट से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए	14	062900	न्यू राजिंदर नगर	AG00580	रोहिणी मंजल
मि. भाविक पाण्डया (मोबाईल नम्बर 8866682937, +91 7291891124 / 25/ 26) से संपर्क करना होगा। अन्य जानकारी के लिए बैंक अधिकारी श्री कैलाश शर्मा (मोबाईल नंबर 9214089244) से संपर्क करना होगा।	15	062900	न्यू राजिंदर नगर	AO01283	प्रोमिला आनंद
अन्य जानकार के ालए बक्र आवकार त्रा कलाश शर्मा (भावाइल नवर ४२ १४०४४२४४) स संपर्क करना होगा। यह कि उपरोक्त व्यतिक्रमी की सम्पत्ति का विक्रय जिसका नाम नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चित	16	062900	न्यू राजिंदर नगर	AT01624	चेतना जोशी
किए गए हैं, वो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसुची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति 'जैसी हैं, जहां है एवं जैसी स्थिति में हैं 'के आधार पर विक्रय की जायेगी।	17	062900	न्यू राजिंदर नगर	AA00027	शीला नरवानी और मनोहर नरवानी
सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा सम्पत्ति के संदर्भ में विक्रय तुरंत रोक दिया जावेगा यदि किसी भी लॉट का विक्रय शुरू करने से		062900		AT01623	-
पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है या उसकी संतुष्टि हेर्तु प्रमाण पत्र	18		न्यू राजिंदर नगर		मीनू सिंह
दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा। विक्रय में सामान्यतया	19	089010	एयरफोर्स स्टेशन पालम	AA53	वी साहनी
आम जनता को स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में अपना	20	089010	एयरफोर्स स्टेशन पालम	AA68	रत्ना शैलजा
कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में, बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा।	21	110310	डाबरी रोड पालम	CC26	सुमन कुमारी आर्य
यह विक्रय आयक्त अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं निम्नलिखित अन्य शर्तों की अध्यधीन होगा—	22	111610	पंजाबी बाग पश्चिम	AA1	बलराम यादव
1. संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अधोहस्ताक्षरकर्ता की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिखे गये है। लेकिन अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस उद्योषणा के किसी भी गलत कथन, त्रुटि एवं चुक के लिये जवाब देह नहीं होगा। 2. सम्पत्ति का आरक्षित मुल्य रू. 17.85 लाख होगा, जिससे कम में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। 3. संपति की बोली बढाने	23	111610	पंजाबी बाग पश्चिम	BB139	रविंदर कौर हरमित कौर
रूप चूक के ाराच जावाज दह नहा होगा। 2. सम्यात का आराक्षत मूर्त्य रू. 17.85 राखि होगा, जिसस कम म सम्यात विक्रय नहा का जावगा। 3. स्पात का जारावा बढ़ान की राशि क्रमशः 20,000/- के गुणांक में होगी। 4. बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मुल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसुली अधिकारी के पक्ष में देय जरिये	24	145010	उत्तम नगर	CC051	नीता कपाई
आर.टी.जी.एस अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC	25	150100	पंजाबी बाग	AA00075	श्री ओम प्रकाश त्रेहन
Code: HDFC0001843 है एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, पते का सबूत एवं प्राधिकार पत्र, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग	26	150100	पंजाबी बाग	SP00122	सुभाष जेटली
ले रहे हैं, प्रस्तुत करने होंगे। 5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित दर से कम नहीं है तो उसे क्रेता	27	150300	जनकपुरी	AL00988	संगीता अग्रवाल और राजीव अग्रवाल
घोषित कर दिया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जब ऐसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या	28	150300	जनकपुरी	AU01779	टेक चंद रात्रा और दर्शन रात्रा
अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा। 6. लिखित कारणों से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन	29	152700	हरि नगर	AF00452	प्रीतपाल सिंह
विक्रय को स्थगिन करने का अधिकार होगा। 7. चल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की संपूर्ण राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए	30	161000	विकासपुरी	AN01251	जतिंदर पाल सिंह
सपूर्ण राश उस आधकार के पास जा विक्रव का संचालन कर रहा है, जमा कराना होगा आर उक्त राश जमा करान में व्यातक्रम करन रखकर विक्रय की जावेगी। 8. अचल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत राशि	31	184700	मायापुरी	AC00246	उर्मिला मेहता
धरोहर राशि को समायोजित करते हुये वसूली अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, के पक्ष में जरिये आर.टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा		307500	अग्निशमन केंद्र	OO01216	-
कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है और उक्त	32				अमर नाथ और ललिता सहगल
राशि जमा कराने के व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी एवं नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 15 दिवस के	33	408100	पश्चिम विहार	AH00562	गौतम गुप्ता और गीता गुप्ता
भीतर क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी के पक्ष में जरिये आर.टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name	34		पश्चिम विहार	AD00317	अशोक त्यागी
- (the Peril LIPEO Peril Ltd. Ordel: Library 1500 Order LIPEO0004040 &	35	408100	मिनम विकास	A TOO 650	पराजीत ज़िंह चेदी और परम पीत कौर

38 769700 सेक्टर—7 द्वारका AE00117 आरती देवगुण बैंक ने बकाये के तहत अतिदेय लॉकर किराए के भुगतान हेतु संबंधित लॉकर किराएदारों को तीन सूचनायें निर्गत की हैं तथा बैंक पदाधिकार उनके निवास पतों पर भी गये थे. तब भी वे ज्ञातव्य नहीं हैं।

AJ00659

AI00602

AA00703

पवनीत सिंह सेठी और परम प्रीत कौर

भूषण कुमार, मधु निझावन और एकता निझावन

अत: इन उपर्युक्त ग्राहकों से निवेदन है कि दिनांक 23—10—2023 तक शाखा में पधारें, अन्यथा किराया विलेख के उपवाक्यों के अनुसार संबंधित लॉकर किराएदारों के जोखिम एवं लागत पर लॉकर किराए की वसूली के लिये बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकर तोड़ने—खोलने की प्रक्रिया का निष्पादन किया जायेगा और बैंक, लॉकर की संपूर्ण वस्तुओं अथवा उनमें से कुछ वस्तुओं की सार्वजनिक अथवा निजी बिक्री करके अपनी बकाया राशियों की वसूली करेगा। बैंक की बकाया देयराशि पूरी होने के बाद लॉकर में शेष बची हुई किसी राशि तथा/अथव वस्तुओं को बैंक द्वारा संबंधित लॉकर किराएदारों के संपूर्ण जोखिम, उत्तरदायित्व एवं लागत पर संभाल कर रखा जाएगा। और यदि ऐसी बिक्री की आय, बैंक की बकाया देयराशियां वसूल करने के लिए अपर्याप्त होती है तो इस अपर्याप्तता (कमी) के लिए लॉकर किराएदा

सीओ : पश्चिमी दिल्ली, पंजाब नैशनल बैंक दिनांक : 20-07-2023, स्थान : दिल्ली

इंडियन बैंक 📤 इलाहाबाद



शाखा : सी3, सेक्टर 12, प्रताप विहार गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश-201009

दर से पाउण्डेज फीस का भगतान करना होगा ।

अन्य सहमालिको का नाम सहित बेची जाने

वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी

अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है

Khasra No. 926, Chak No. 1, Patel Nagar,

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 10/07/2023 को जारी किया गया।

Behind Khodia Balaji Mandir, Pali- 306401

E-AUCTION SALE NOTICE

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवे पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

35 408100 पश्चिम विहार

पश्चिम विहार

बिजवासन

408100

37 657200

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक, प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा (रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक) इंडियन बैंक, सम्बन्धित शाखा, प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, निम्नलिखित कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता से इंडियन बैंक, सम्बन्धित शाखा, प्रतिभूत क्रेडिटर के नीचे वर्णित बकायों एवं भावी ब्याज, प्रभारों तथा लागतों आदि की वसूली के लिए उसकी बिक्री ''**जो है यही है'', ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं** वित विभिन्नों पर की जारेगी। परोक समानि देव आश्रित प्रत्या देशा दीपारी गणि नीने दी गगी है। ई-जीलागी प्राप्तमा से विकी की जाने वाली समानि का विभिन्न विद्यापा नीने दिया गया है।

किसी भी प्रकार

के भार का विवरण

जिसके लिए सम्प

उत्तरदायी है

ज्ञात नहीं

क्र.	शाखा का नाम तथा कर्जदार∕गारंटर का नाम	बकाया देयताएं	नीलामी पर रखी प्रतिभूति का विवरण	आरक्षित मूल्य	संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि	नोडल शाखा
सं.		कब्जे का प्रकार		ईएमडी		एवं समय	खाता विवरण
1.	कर्जदार∕बंधककर्ताः श्री अनुज प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद फ्लैट नंबर 432-बी, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-एम, सेक्टर −23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश − 201002 श्री अनुज प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, मकान नंबर एफ−318, सेक्टर −23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश − 201002 ऋण खाता संख्याः 50400229148	रु. 15,55,260/- (तिथि 12.07.2023) सांकेतिक	फ्लैट नंबर एम–432 बी, (बिना छत के अधिकार के), दूसरी मंजिल, ब्लॉक एम, सेक्टर –23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201002 में निर्मित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, कवर्ड एरिया 33.40 वर्ग मीटर, श्री अनुज प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद के स्वामित्व में। सीमाएँ – उत्तर – मकान नंबर 433–बी, दक्षिण – मकान नंबर 429–बी पूर्व – भूतल पर 25 फीट चौड़ी सङ्क, पश्चिम – मकान नंबर 434–बी		रु. 25,000∕-	23.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.	इंडियन बैंक, नोएडा शाख सेक्टर-61, नोएडा खाता सं. 6102699146 आईएफएससी : IDIB000N108
2.	कर्जदार/बंधककर्ताः श्री मनीष चौहान पुत्र श्री लाल सिंह चौहान ● निवासी – एलआईजी पलैट नं. 203-बी, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-एफ, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 ● एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ● एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इकोटेक-12, ग्रेटर नोएडा – 201310 ● एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इकोटेक-12, ग्रेटर नोएडा – 201310 ● एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 97, जोन 2, एमपी नगर, भोपाल – 462011 सह कर्जदार/बंधककर्ताः श्रीमती सरस्वती चौहान पत्री श्री मनीष चौहान, निवासी – एलआईजी फ्लैट नं. 203-बी, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-एफ, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल, सेक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009 ■ एलआईजी हाउस नंबर एफ-279 ए1, पहली मंजिल हाउस नंबर एफ-279 ए1	रु. 14,40,148/- (तिथि 12.07.2023) सांकेतिक	ब्लॉक एफ, सेक्टर -11, प्रतापविहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 में स्थित 17.76 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले दूसरे तल (बिना छत के अधिकार के) पर एलआईजी मकान/फ्लोर नंबर 203 बी का समस्त भाग। उत्तर - मकान नंबर 203, बी-1 दक्षिण - भूतल पर 20 फीट चौड़ी सड़क पूर्व - मकान नंबर एफ 179 बी-1, पश्चिम - मकान नंबर एफ 204 बी	रु. 14.72 लाख रु. 1.47 लाख	₹5. 25,000/-	23.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.	इंडियन बैंक, नोएडा शाख सेक्टर-61, नोएडा खाता सं. 6102699146 आईएफएससी : IDIB000N108
3.	कर्जदार/बंधककर्ताः श्री रहीश अत्ती पुत्र श्री रूस्तम अत्ती; फ्लैट नंबर एफ-262, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर -11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● मकान नंबर डी-367, सेक्टर -11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● फ्रेंड्स लुक सैलून; ईएस-3, सेक्टर -11, बैलूम पब्लिक स्कूल के पास, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-338, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201014 ● गांव -कोटी लगा, देवी खाल, देवा पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड - 246149 सह कर्जदार/बंधककर्ताः श्रीमती सुरेगा बेगम पत्नी श्री रहीश आली; फ्लैट नंबर एफ-262, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर -11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201002 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -11, प्रताप विहार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -11, प्रताप विहार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -12, विवास कर नगर, योजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -11, प्रताप विहार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 ● एफ-350, सेक्टर -11, प्रताप विहास नाम कर नाम क	सांकेतिक	फ्लैट नंबर एफ-262 (बिना छत के अधिकार के), ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर -11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201009 में निर्मित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, माप क्षेत्र 33.38 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया 18.87 वर्ग मीटर) श्री रहीश अली पुत्र श्री रूस्तम अली और श्रीमती सुरेया बेगम पत्नी श्री रहीश अली के स्वामित्व में, सीमाएं - उत्तर - मकान नंबर एफ-243 दक्षिण - 20 फीट चौड़ी सड़क पूर्व - मकान नंबर एफ-261, पश्चिम - मकान नंबर एफ-263		₹. 25,000/-	23.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.	इंडियन बैंक, नोएडा शाखा संक्टर-61, नोएडा खाता सं. 6102699146 आईएफएससी : IDIB000N108

संविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारी ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033–22901004 एवं सेवा प्रदाता के हेल्पडेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया्युङ्गङ्गस्ळि२श्रेङ्गीर्श्रूङ्गे पर सम्पर्क करें एवं ईएमडी स्थिति के लिए ibapifin@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें।

सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए देखें : https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से संबंधित किसी स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नं. 18001025026' तथा 🛮 011–41106131' पर सम्पर्क करें।

थि : 18.07.2023, स्थान : प्रताप विहार, गाजियाबाद

ऋण खाता संख्या: 50460481551